


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड —उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 278] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 14, 1972/कार्तिक 23, 1894

No 278] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 14, 1972/KARTIKA 23, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filled
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 14th November 1972

G.S.R. 460(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Uttar Pradesh Foodgrains (Restrictions on Border Movement) Order, 1969, namely:—

1. (1) This Order may be called the Uttar Pradesh Foodgrains (Restrictions on Border Movement) Amendment Order, 1972.

(2) It shall come into force at once.

2. In clause 3 of the Uttar Pradesh Foodgrains (Restrictions on Border Movement) Order, 1969, in the proviso, for sub-clause (v), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(v) not exceeding twenty kilograms in weight in the aggregate, at one time, by a bona fide resident of the border area for domestic consumption; or ”

[No. 204(UP) (3)/89/72-PY.II.]

A. K. MAJUMDAR, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1972

सौ.का.नि. 480 (अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमा संचलन पर निर्बंधन) आदेश, 1969 में और संशोधन करने के लिए एलबुद्धा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमा संचलन पर निर्बंधन) संशोधन आदेश, 1972 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमा संचलन पर निर्बंधन) आदेश, 1969 के खण्ड 3 में, पन्तुक में, उपखण्ड (V) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(V) सीमा क्षेत्र के वास्तविक निवासी द्वारा घरेलू उपभोग के लिए किसी एक समय पर कुल मिलाकर भार में बीस किलोग्राम से अधिक; या”

[सं. 204 (यू. पी.) (3)/89/72 पी. आई-II]

ए. के. मजुमदार, संयुक्त सचिव